

## **Transliteration–Telugu**

**Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention  
(including Telugu letters – Short e, Short o) -**

a A i I u U  
R RR IR IRR  
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k	kh	g	gh	n/G		
c	ch	j	jh	n/J		(jn – as in jnAna)
T	Th	D	Dh	N		
t	th	d	dh	n		
p	ph	b	bh	m		
y	r	l	L	v		
S	sh	s	h			

## **sAramE kAni-pantuvarALi**

In the kRti 'sAramE kAni' – rAga pantuvarAli (tAla miSra cApu), Sri tyAgarAja tells his mind that the name 'rAma' is the essence of all.

- |    |  |
|----|--|
| P  | <sup>1</sup> sAramE kAni anya mArga<br>vicAram( <sup>2</sup> E)TikE O manasA   |
| A  | vAru vIru teliya lEka palku<br>vArtalu vinan(E)lE rAma nAmamu (sAramE)   |
| C1 | mAra kOTi lAvaNyuD(ai)na raghu<br>vIrungi nAma sudhA rasamunaru<br>sAreku pAnamu jEsi jagad-<br>vihAruDai velayu nArAyaNa<br>nArAyaNa(y)anucunu vAramu<br><sup>3</sup> Sarad-ambuda nibhuDau SrI<br>nArada muni <sup>4</sup> valmIkA jAtuniki<br>kUrimin(u)padESinca lEdA (sAramE) |
| C2 | parama pAvanuni SaraN(A)gata jana<br>paripAlana birud(A)nkuni sItA<br>varuni nAma sudhA rasa pAnamu<br>niratamunaru jEsi hari hari<br>hari(y)anucu santatambunu<br>sariyu lEni kIrTi kAnci dEhamu<br>paravaSambu jendi Suka brahma<br>parIkshittuk(o)saga lEdA vAdA (sAramE)       |
| C3 | <sup>5</sup> sAma gAna lOluDau rajata giri<br>dhAmuDaina tyAgarAja SivuD(a)ti<br>nEmamutO nAm(A)mRta pAnamu<br>Emarakanu jEsi rAma rAma<br>rAma(y)anucu satatamu<br>SrImad-Adi gauriki SRngAriki<br>A mahimalan(A) rahasyamulan(a)ti   |

prEman(u)padESinca lEdA (sAramE)

Gist

O My Mind!

Why thought of any other path which is of no substance at all?  
Why should You listen to words uttered ignorantly by anyone else?  
Only name of Lord SrI rAma is of substance.

Didn't sage SrI nArada -

who resembles autumnal (white) cloud (in body hue),  
who, ever drinks the nectarine juice of the name of raghu vIra –  
    who is handsome like a million cupids,  
who ever chants 'nArAyaNa, nArAyaNa, nArAyaNa' and  
    who shines as a wanderer of all the Worlds,  
lovingly initiate (later sage) vAlmIki in the name 'rAma'?  
Why thought of any other path which is of no substance at all?

Didn't sage Suka brahma –

who ever drinks the nectarine juice of the name 'rAma' –  
    who is Supremely hallowed,  
    who wears appellation of 'Protecting those seeking  
        refuge',  
    who is Consort of sItA,  
    who attained unrivalled fame by ceaselessly chanting 'hari hari  
        hari',  
narrate the story of Lord hari to King parIkshit,  
all the while experiencing state of bodily trance?  
Why thought of any other path which is of no substance at all?

Didn't Lord Siva –

who enjoys sAma gAna,  
who is resident of himAlaya,  
who bestows auspiciousness to this tyAgarAja,  
    who unforgettingly and with much self-restraint drinks the  
        nectar of the name 'rAma',  
very lovingly, initiate pArvatI – gauri,  
    the Most Auspicious,  
    the Ancient One and  
    the Most charming One –  
in those mights and in those secrets of chanting ceaselessly 'rAma rAma  
        rAma'?  
Why thought of any other path which is of no substance at all?

Word-by-word Meaning

P O My Mind (manasA)! Why (ETikE) thought (vicAramu)  
(vicAramETikE) of any other (anya) path (mAga) which is of no substance at all (sAramE kAni)?

A Why (EIE) should You listen (vinanu) (vinanEIE) to words (vArtalu)  
uttered (palku) ignorantly (teliya lEka) (literally without knowing) by anyone  
else (vAru vIru) (literally sundry)?

O My Mind! Only (kAni) name (nAmamu) of Lord SrI rAma is of  
substance (sAramE). Why thought of any other path?

C1 Didn't (lEdA) sage (muni) SrI nArada -

who resembles (nibhuDau) autumnal (Sarad) (white) cloud (ambuda)  
(Sarad-ambuda) (in body hue),

who, ever (sAreku) drinking (pAnamu jEsi) the nectarine (sudhA) juice  
(rasamunaru) of the name (nAma) of raghu vIra (raghu vIrungi) – who is  
handsome (lAvaNyuDaina) like a million (kOTi) (literally crore) cupids (mAra),

shines (velayu) as a wanderer (vihAruDai) of all the Worlds (jagat)  
(jagad-vihAruDai) ever (vAramu) chanting (anucunu) (literally uttering)  
'nArAyaNa, nArAyaNa, nArAyaNa' (nArAyaNayanucunu) -

(didn't he - sage nArada) lovingly (kUrimini) initiate (upadESinca)  
(kuriminupadESinca) (later sage) vAlmIki – one born (jAtuniki) from the ant-hill  
(valmIka) in the name 'rAma'?

O My Mind! Why thought of any other path which is of no substance at  
all?

C2 Didn't (lEdA) sage Suka brahma –

who, ever (niratamunaru) drinking (pAnamu jEsi) the nectarine (sudhA)  
juice (rasa) of the name (nAma) of 'rAma' – one who is Supremely (parama)  
hallowed (pAvanuni), who wears (ankuni) the appellation (birudu)  
(birudAnkuni) of 'Protecting (paripAlana) those (jana) (literally people) seeking  
(Agata) His refuge (SaraNu) (SaraNAgata)', and who is Consort (varuni) (literally  
suitor) of sItA, and

attaining (kAnci) unrivalled (sariyu lEni) fame (kIrTi) by ceaselessly  
(santatambunu) chanting (anucu) (literally uttering) 'hari hari hari' (hariyanucu),

(didn't he – sage Suka brahma) narrate (osaga) (literally bestow) the  
story of Lord hari (SrImad bhAgavata purANA) to King parIkshit (parIkshittuku)  
(parIkshittukosaga), all the while experiencing (jendi) state of bodily (dEhamu)  
trance (paravaSambu)? Is there any dispute (vAda)?

O My Mind! Why thought of any other path which is of no substance at  
all?

C3 Didn't (lEdA) Lord Siva –

who enjoys (lOluDau) sAma gAna,

who is resident (dhAmuDaina) of himAlaya – snow (rajata) (literally  
silver) mountain (giri),

who bestows auspiciousness (SivuDu) (SivuDati) to this tyAgarAja,

unforgettingly (Emarakanu) and with much (ati) self-restraint  
(nEmamuto) drinking (pAnamu jEsi) the nectar (amRta) of the name (nAma)  
(nAmAmRta) 'rAma',

(didn't He - Lord Siva) very (ati) lovingly (prEmanu), initiate  
(upadESinca) (prEmanupadESinca) pArvatI – gauri (gauriki), the Most  
Auspicious (SrImat), the Ancient One (Adi) (SrImadAdi) and the Most charming  
One (SRngAriki) –

in those (A) mights (mahimalanu) and in those (A) (mahimalanA) secrets  
(rahasyamulanu) (rahasyamulanati) of chanting (anucu) ceaselessly (satatamu)  
the name 'rAma rAma rAma' (rAmayanucu)?

O My Mind! Why even thought of any other path which is of no substance  
at all?

Notes –

Variations –

rAga – pantuvarALi - kAma vardhini.

References –

<sup>4</sup> – valmIka jAtuniki – one born from anti-hill – vAlmIki - There is a traditional story about a robber who turns into sage vAlmIki. However, the source of the story is not known. According to Sir Monier's Sanskrit – English Dictionary, vAlmIki was indeed a brAhmaNa by birth and closely connected with

Kings of ayOdhya. He also mentions about the traditional story in the Dictionary. Please visit website –  
[http://web.onetel.net.uk/~suman11/magazine\\_articles\\_November4.htm#Dhyana](http://web.onetel.net.uk/~suman11/magazine_articles_November4.htm#Dhyana) (Dhyana, Japa, Mantra, Guru, and Avatar).

<sup>5</sup> – sAmagana lOlDu - The reference to Lord Siva is from phala Sruti of vishNu sahasranAma where dEvi pArvatI asks Lord Siva the means for hearing the thousand(s of) names of vishNu recited by the learned every day. Lord Siva replies that simple repetition of the name of 'rAma' would be equal to reciting vishNu sahasra nAma.

Comments -

<sup>1</sup> – sAramE kAni – the meaning of these words when occurring alone in the pallavi has a different meaning - 'of no substance at all'; when combined with the ending words of anupallavi - rAma nAmamu – it will mean 'only name of SrI rAma is of substance'. Similarly, as the caraNas are not directly linked to the pallavi, the first meaning – 'of no substance at all' will be taken.

<sup>2</sup> – ETikE – this is a feminine form of addressing. In many kritis SrI tyAgarAja addresses his mind like that.

<sup>3</sup> – Sarad-ambuda – White in hue – because after the rains the sky is clear and the clouds, if any, are white in colour.

## Devanagari

प. सारमे कानि अन्य मार्ग

विचार(मे)टिके ओ मनसा

अ. वारु वीरु तेलिय लेक पल्कु

वार्तलु विन(ने)ले राम नाममु (सा)

च1. मार कोटि लावण्यु(डै)न रघु

वीरुनि नाम सुधा रसमुननु

सारेकु पानमु जेसि जगद्-

विहारुडै वेलयु नारायण

नारायण(य)नुचुनु वारमु

शर(द)म्बुद निभुडौ श्री

नारद मुनि वल्मीकि जातुनिकि

कूरिमि(नु)पदेशिञ्च लेदा (सा)

च2. परम पावनुनि शर(ण)गत जन

परिपालन बिरु(दां)कुनि सीता

वरुनि नाम सुधा रस पानमु

निरतमुननु जेसि हरि हरि

हरि(य)नुचु सन्ततम्बुनु  
 सरियु लेनि कीर्ति काञ्चि देहमु  
 परवशम्बु जेन्दि शुक ब्रह्म  
 परीक्षित्तु(को)सग लेदा वादा (सा)

च3. साम गान लोलुडौ रजत गिरि  
 धामुडैन त्यागराज शिवु(ड)ति  
 नेममुतो ना(मा)मृत पानमु  
 एमरकनु जेसि राम राम  
 राम(य)नुचु सततमु  
 श्रीम(दा)दि गौरिकि शृंगारिकि  
 आ महिमल(ना) रहस्यमुल(न)ति  
 प्रेम(नु)पदेशिञ्च लेदा (सा)

### **English with Special Characters**

pa. sāramē kāni anya mārga  
 vicāra(mē)ṭikē ḥ manasā  
 a. vāru vīru teliya lēka palku  
 vārtalu vina(nē)lē rāma nāmamu (sā)  
 ca1. māra kōṭi lāvanyu(dai)na raghu  
 vīruni nāma sudhā rasamunananu  
 sāreku pānamu jēsi jagad-  
 vihāruḍai velayu nārāyaṇa  
 nārāyaṇa(ya)nucunu vāramu  
 śara(da)mbuda nibhuḍau śrī  
 nārada muni valmīka jātuniki  
 kūrimi(nu)padēśiñca lēdā (sā)  
 ca2. parama pāvanuni śara(ṇā)gata jana  
 paripālana biru(dāṁ)kuni sītā  
 varuni nāma sudhā rasa pānamu  
 niratamunananu jēsi hari hari

hari(ya)nucu santatambunu  
 sariyu lēni kīrti kāñci dēhamu  
 paravaśambu jendi śuka brahma  
 parīkṣittu(ko)saga lēdā vādā (sā)  
 ca3. sāma gāna lōluḍau rajata giri  
     dhāmuḍaina tyāgarāja śivu(da)ti  
     nēmamutō nā(mā)mṛta pānamu  
     ēmarakanu jēsi rāma rāma  
     rāma(ya)nucu satatamu  
     śrīma(dā)di gauriki śrīngāriki  
     ā mahimala(nā) rahasyamula(na)ti  
     prēma(nu)padēśiñca lēdā (sā)

### **Telugu**

- ప. సారమే కాని అన్య మార్గ  
విచార(మే)టికే ఓ మనసా
- అ. వారు ఏరు తెలియ లేక పల్చు  
వార్తలు విన(నే)లే రామ నామము (సా)
- చ1. మార కోటి లావణ్య(డై)న రఘు  
ఏరుని నామ సుధా రసమునను  
సారెకు పానము జేసి జగద్-  
విహారుడై వెలయు నారాయణ  
నారాయణ(య)నుచును వారము  
శర(ద)ముచ్చద నిభుడొ శ్రీ  
నారద ముని వల్మీక జాతునికి  
కూరిమి(ను)పదేశిజ్ఞ లేదా (సా)
- చ2. పరమ పావనుని శర(ణా)గత జన  
పరిపాలన బిరు(దాం)కుని సీతా  
వరుని నామ సుధా రస పానము  
నిరతమునను జేసి హారి హారి  
హారి(య)నుచు సమ్మతముచ్చను

సరియు లేని కీర్తి కాజ్చి దేహము  
పరవశమ్యు జైని శుక బ్రహ్మ  
పరీక్షితు(కొ)సగ లేదా వాదా (సా)

చ3. సామ గాన లోలుడో రజత గిరి  
ధాముటైన త్యాగరాజ శివు(ద)తి  
నేమముతో నా(మా)మృత పానము  
ఏమరకను జేసి రామ రామ  
రామ(య)నుచు సతతము  
శ్రీమదాది గౌరికి శృంగారికి  
ఆ మహిమల(నా) రహస్యముల(న)తి  
ప్రేమ(ను)పదేశిజ్ఞ లేదా (సా)

## Tamil

- ப. సారమే కானி அன்ய மார்க<sup>3</sup>  
விசார(மே)டிகே ஓ மனஸா
- அ. வாரு வீரு தெவிய லேக பல்கு  
வார்தலு வின(னே)லே ராம நாமமு (ஸா)
- ச1. மார கோடி வாவண்யு(டெ<sup>3</sup>)ன ரகு<sup>4</sup>  
வீருனி நாம ஸாதா<sup>4</sup> ரஸமுனனு  
ஸாரெகு பானமு ஜேஸி ஜகத்<sup>3</sup>-  
விஹாருடெ<sup>3</sup> வெலயு நாராயண  
நாராயண(ய)னுசனு வாரமு  
ஸர(த<sup>3</sup>)ம்பு<sup>3</sup>த<sup>3</sup> நிபு<sup>4</sup>டெள<sup>3</sup> ஸ்ரீ  
நாரத<sup>3</sup> முனி வல்மீக ஜாதுனிகி  
கூரிமி(னு)பதே<sup>3</sup>ஸிஞ்ச லேதா<sup>3</sup> (ஸா)
- ச2. பரம பாவனுனி ஸர(ணா)க<sup>3</sup>த ஜின  
பரிபாலன பிழுரு(தா<sup>3</sup>)ங்குனி ஸீதா  
வருனி நாம ஸாதா<sup>4</sup> ரஸ பானமு  
நிரதமுனனு ஜேஸி ஹரி ஹரி  
ஹரிய(னு)ச ஸந்ததம்பு<sup>3</sup>னு  
ஸரியு லேனி கீர்தி காஞ்சி தே<sup>3</sup>ஹமு  
பரவஸம்பு<sup>3</sup> ஜெந்தி<sup>3</sup> ஸக ப்ரஹ்ம  
பர்க்ஷித்து(கொ)ஸக<sup>3</sup> லேதா<sup>3</sup> வாதா<sup>3</sup> (ஸா)
- ச3. ஸாம கா<sup>3</sup>ன லோலுடெள<sup>3</sup> ரஜத கிழி  
தா<sup>4</sup>முடை<sup>3</sup>ன த்யாக<sup>3</sup>ராஜ ஸிவ(ட<sup>3</sup>)தி  
நேமமுதோ நா(மா)ம்ருத பானமு  
ஏமரகனு ஜேஸி ராம ராம  
ராம(ய)னுச ஸததமு  
ஸ்ரீம(தா<sup>3</sup>)தி<sup>3</sup> கெள<sup>3</sup>ரிகி ஸ்ருங்கா<sup>3</sup>ரிகி  
ஆ மஹிமல(னா) ரஹஸ்யமுல(ன)தி

## ப்ரேம(னு)பதே<sup>3</sup> ஸிஞ்ச லேதா<sup>3</sup> (ஸா)

சாரமேயற்ற பிற நெறிகளின்  
எண்ணம் எதற்கடி, ஒ மனமே?

அவரும், இவரும், அறியாது பேசும்  
சொற்களைக் கேட்பதேனடி? இராம நாமமே  
சாரமேயன்றி, பிற நெறிகளின்  
எண்ணம் எதற்கடி, ஒ மனமே?

1. மதனர்கள் கோடி எழிலுடைவனாகிய, இரகு  
வீரனின் நாம அமிழ்துச் சாற்றினை,  
எவ்வமயமும் பருகி, பல்லுலக  
சஞ்சாரியாக விளங்கும், 'நாராயண,  
நாராயண'வென்று (செபித்துக்கொண்டு) நாளும்,  
இலையுதிர்கால முகில் நிகரினராகிய, உயர்  
நாரத முனி, (இராம நாமத்தினை) புற்றிலுதித்தோனுக்குக்  
கனிவுடன் உபதேசிக்கவில்லையா?  
சாரமேயற்ற பிற நெறிகளின்  
எண்ணம் எதற்கடி, ஒ மனமே?

2. முற்றிலும் தூயோனின், சரணடைந்தோரைப்  
பேணும் விருதேந்துவோனின், சீதை  
மணாளனின், நாம அமிழ்துச் சாற்றினை  
இடையறாது பருகி, 'அரி, அரி,  
அரி'யென்று (செபித்து), எவ்வமயமும்,  
ஈடற்ற புகழ் பெற்று, மெய்ப்  
பரவசமுற்று, சுகப்பிரும்மம் (அரி நாமத்தினை)  
பர்த்தித்துக்கு அளிக்கவில்லையா? வாதா?  
சாரமேயற்ற பிற நெறிகளின்  
எண்ணம் எதற்கடி, ஒ மனமே?

3. சாமகானத்தினை விரும்பும், பனிமலை  
உறைவோனாகிய, தியாகராசனுக்கு நலனருள்வோன், மிக்கு  
நியமத்துடன், (இராம) நாம அமிழ்தினை  
மறவாது பருகி, 'இராமா, இராமா,  
இராமா'யென (செபித்து), எவ்வமயமும்,  
உயர் ஆதி கெளரிக்கு, சிங்காரிக்கு,  
அம்மகிமைகளினையும், அம்மருமங்களினையும், மிக்கு  
அன்புடன் உபதேசிக்கவில்லையா?  
சாரமேயற்ற பிற நெறிகளின்  
எண்ணம் எதற்கடி, ஒ மனமே?

எதற்கடி - மனத்தினை பெண்பாலில் தியாகராஜர் வினிக்கின்றார்  
சஞ்சாரி - திரிபவர்  
இலையுதிர்கால முகில் நிகரினராகிய - வெண்ணிற உடல் வண்ணமுடைய  
புற்றிலுதித்தோன் - வால்மீகி முனி

ಮುರ್ರಿಲುಮ் ತೂಯೋಣ - ಸರಣಾಟನೆಂತೋರೆಪ ಪೆಣ್ಣುಮ ವಿಗ್ರಹೆಂತುವೋಣ - ಇರಾಮಣ  
ಪಾರೀಟೆಸಿತ್ತು - ಕಲಿಯೆ ವೆಂನ್ರ ಮಣಣಣ  
ಸಾಮಕಾಣಮ್ - ಸಾಮ ವೆತತ್ತಿಣೆ ಔತಲ್  
ತಿಯಾಕರಾಚನುಕ್ಕು ನಲನ್ನರುಣಿವೋಣ - ಶಿವಣಿ  
ಆಶ್ತಿ ಕೆಣಾರಿ - ಪಾರ್ವತಿ  
ಶಿಂಗಾರಿ - ಪಾರ್ವತಿಯೆಕ ಕೃಹಿಕ್ಕುಮ್.

## Kannada

ಪ. ಸಾರಮೇ ಕಾನಿ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗ

ವಿಜಾರೆ(ಮೇ)ಟಿಕೇ ಓ ಮೆನಸಾ

ಅ. ವಾರು ಏರು ತೆಲಿಯ ಲೇಕ ಪಲ್ಲು

ವಾರ್ತಾಲು ವಿನ(ನೇ)ಲೇ ರಾಮ ನಾಮಮು (ಸಾ)

ಚೆಗ. ಮಾರ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ(ಡೈ)ನ ರಘು

ಏರುನಿ ನಾಮ ಸುಧಾ ರಸಮುನನು

ಸಾರೆಪು ಪಾನಮು ಜೀಸಿ ಜಗದ್ರೋ-

ವಿಹಾರುಡೈ ವೆಲಯು ನಾರಾಯಣ

ನಾರಾಯಣ(ಯ)ನುಜುನು ವಾರಮು

ಶರ(ದ)ಮ್ಯಾದ ನಿಭುಡೋ ಶ್ರೀ

ನಾರದ ಮುನಿ ವಲ್ಲಿಕೆ ಜಾತುನಿಕಿ

ಹೊರಿಮಿ(ನು)ಪದೇಶಿಜ್ಞ ಲೇದಾ (ಸಾ)

ಚೆಗ. ಪರಮ ಪಾನನುನಿ ಶರ(ಣ)ಗತ ಜನ

ಪರಿಪಾಲನ ಬಿರು(ದಾಂ)ಹನಿ ಸೀತಾ

ವರುನಿ ನಾಮ ಸುಧಾ ರಸ ಪಾನಮು

ನಿರತಮುನನು ಜೀಸಿ ಹರಿ ಹರಿ

ಹರಿ(ಯ)ನುಜು ಸನ್ತತಮ್ಯಾನು

ಸರಿಯು ಲೇನಿ ಕೇರ್ತಿ ಕಾಜ್ಞ ದೇಹಮು

ಪರವಶಮ್ಮು ಜೆನ್ನಿ ಶುಕ ಬ್ರಹ್ಮ

ಪರಿಕ್ಷಿತ್ತು(ಕೊ)ಸಗ ಲೇದಾ ವಾದಾ (ಸಾ)

ಚೆಗ. ಸಾಮ ಗಾನ ಲೋಲುಡೋ ರಜತೆ ಗಿರಿ

ധാമ്പദ്ധന് തൃഗർജ്ജ ശിപ്പ്(ഡ)ി  
 നേമമുകോ നാ(മാ)മ്പുത് പാനമു  
 ഏമുരക്കൻ ജീസി രാമ രാമ  
 രാമ(യ)നും സ്തതമു  
 ത്രീമു(ദാ)ദി ഗോരിക ശ്രീംഗാരിക  
 ആ മേഹിമല(നാ) രക്ഷാമുല(ന)ി  
 പ്രീമു(നു)പദേശിജ്ഞ ലേഡാ (സാ)

## **Malayalam**

- പ. സാരമേ കാനി അന്യ മാർഗ  
വിചാര(മേ)ടികേ ഓ മനസാ
- അ. വാരു വീരു തെലിയ ലേക പല്കു  
വാർത്തലു വിന(നേ)ലേ രാമ നാമമു (സാ)
- ച1. മാര കോടി ലാവണ്യു(ബൈ)ന റബ്ലു  
വീരുനി നാമ സുധാ രസമുനനു  
സാരകു പാനമു ജേസി ജഗത്-  
വിഹാരുബൈ വെലയു നാരായണ  
നാരായണ(യ)നുചുനു വാതമു  
ശര(ഭ)മ്പബുദ നിഭുയയ ശ്രീ  
നാരദ മുനി വല്മീകി ജാതുനികി  
കുർമ്മി(നു)പദേശിഞ്ചു ലേഡാ (സാ)
- ച2. പരമ പാവനുനി ശര(ണാ)ഗത ജന  
പരിപാലന ബിരു(ഭാം)കുനി സീതാ  
വരുനി നാമ സുധാ രസ പാനമു  
നിരതമുനനു ജേസി ഹരി ഹരി  
ഹരി(യ)നുചു സത്തമ്പബുനു  
സതിയു ലേനി കീര്ത്തി കാഞ്ചി ദേഹമു  
പരവരമ്പബു ജേങി ശുക ബ്രഹ്മ  
പരീക്ഷിത്തു(കൊ)സഗ ലേഡാ വാദാ (സാ)
- ച3. സാമ ഗാന ലോലുധയ രജത ശിരി  
ധാമുബൈന ത്യാഗരാജ ശിവു(ഡ)തി  
നേമമുതോ നാ(മാ)മ്പുത പാനമു  
എമരകനു ജേസി രാമ രാമ  
രാമ(യ)നുചു സത്തമു  
ശ്രീമ(ഭാ)ദി ഗൗരികി ശൃംഗാരികി  
ആ മഹിമല(നാ) രഹസ്യമുല(ന)തി  
പ്രേമ(നു)പദേശിഞ്ചു ലേഡാ (സാ)

## **Assamese**

প. সাবমে কানি অন্য মার্গ

রিচাৰ(মে)টিকে ও মনসা

অ. ৱারু ৱীৰু তেলিয় লেক পঞ্চু

ৱার্তলু ৱিন(নে)লে ৰাম নামমু (সা)

চ১. মাৰ কোটি লাৱণ্য(ডে)ন ৰঘু

ৱীৰনি নাম সুধা ৰসমুননু

সাৰেকু পানমু জেসি জগদ্-

লিহারুড়ে রেলযু নাৰায়ণ

নাৰায়ণ(য়)নুচুনু ৱাৰমু

শৰ(দে)ষ্টুদ নিভুড়ো শ্ৰী

নাৰদ মুনি রল্লীক জাতুনিকি

কূৰিমি(নু)পদেশিষ্ঠও লেদা (সা)

চ২. পৰম পাৱনুনি শৰ(গা)গত জন

পৰিপালন বিৰু(দাং)কুনি সীতা

ৱৰুনি নাম সুধা ৰস পানমু

নিৰতমুননু জেসি হৰি হৰি

হৰি(য়)নুচু সন্ততমুনু

সৱিযু লেনি কীৰ্তি কাঞ্চি দেহমু

পৰৱশমু জেন্দি শুক ৱক্ষ

পৰীক্ষিতু(কো)সগ লেদা ৱাদা (সা)

চ৩. সাম গান লোলুড়ো ৰজত গিৰি

ধামুড়েন আগৰাজ শিৰু(ডে)তি

নেমমুতো না(মা)মত পানমু

এমৰকনু জেসি ৰাম ৰাম

ৰাম(য়)নুচু সততমু

শ্রীম(দা)দি গৌরিকি শৃংগারিকি  
আ মহিমল(না) ৰহস্যমূল(ন)তি  
প্রেম(নু)পদেশিঙ্গও লেদা (সা)

### **Bengali**

- প. সারমে কানি অন্য মার্গ  
বিচার(মে)টিকে ও মনসা  
অ. বারু বীরু তেলিয় লেক পক্ষু  
বার্তলু বিন(নে)লে রাম নামমু (সা)  
চ১. মার কোটি লাবণ্য(ডৈ)ন রঘু  
বীরুনি নাম সুধা রসমুনু  
সারেকু পানমু জেসি জগদ্-  
বিহারুড়ে বেলযু নারায়ণ  
নারায়ণ(য়)নুচুনু বারমু  
শর(দ)স্বুদ নিভুড়ো শ্রী  
নারদ মুনি বল্মীকি জাতুনিকি  
কূরিমি(নু)পদেশিঙ্গও লেদা (সা)  
চ২. পরম পাবনুনি শর(ণা)গত জন  
পরিপালন বিরু(দাং)কুনি সীতা  
বরুনি নাম সুধা রস পানমু  
নিরতমুনু জেসি হরি হরি  
হরি(য়)নুচু সন্তস্বুনু  
সরিযু লেনি কীর্তি কাঞ্চি দেহমু  
পরবশস্বু জেন্দি শুক ব্রহ্ম  
পরীক্ষিতু(কো)সগ লেদা বাদা (সা)  
চ৩. সাম গান লোলুড়ো রজত গিরি

ધામુડેન આગરાજ શિવુ(ડ)તિ

નેમમુતો ના(મો)મૃત પાનમુ

એમરકનુ જેસિ રામ રામ

રામ(ય)નૂચુ સતતમુ

શ્રીમ(દા)દિ ગોરિકિ શૃંગારિકિ

આ મહિમલ(ના) રહશ્યમુલ(ન)તિ

પ્રેમ(નુ)પદેશિંઘ લેદા (સા)

### **Gujarati**

પ. સારમે કાનિ અન્ય માર્ગ

વિચાર(મે)ટિકે ઓ મનસા

અ. વારુ વીર તોલિય લેક પલ્કુ

વાર્તલુ વિન(ને)લે રામ નામમુ (સા)

ચ૧. માર કોટિ લાવણ્યુ(ડૈ)ન રઘુ

વીરનિ નામ સુધા રસમુનનુ

સારેકુ પાનમુ જેસિ જગાદ-

વિહારેડૈ વેલયુ નારાયણ

નારાયણ(ય)નુચુનુ વારમુ

શર(દ)મ્બુદ નિભુડૈ શ્રી

નારદ મુનિ વલ્મીષ જતુનિકિ

કૂરિમિ(નુ)પદેશિંઘ લેદા (સા)

ચ૨. પરમ પાવનુનિ શર(ણા)ગત જન

પરિપાલન બિરુ(દા)કુનિ સીતા

વરનિ નામ સુધા રસ પાનમુ

નિરતમુનનુ જેસિ હરિ હરિ

હરિ(ય)નુચુ સન્તતમ્બુનુ

સરિયુ લેનિ કીર્તિ કાર્ણિય દેહમુ

પરવશમ્બુ જેનિ શુક બ્રહ્મ

પરીક્ષિતુ(કો)સગ લેદા વાદા (સા)

ચ૩. સામ ગાન લોલુડૈ રજત ગિરિ

ધામુડૈન ત્યાગરાજ શિવુ(દ)તિ  
 નેમમુતો ના(મા)મૃત પાનમુ  
 એમરકનુ જેસિ રામ રામ  
 રામ(ય)નુચુ સતતમુ  
 શ્રીમ(દા)દિ ગૌરિકિ શૃંગારિકિ  
 આ મહિમલ(ના) રહસ્યમુલ(ન)તિ  
 પ્રેમ(નુ)પદેશિષ્ય લેદા (સા)

### **Oriya**

૧. પારમે કાનિ અન્ય માર્ણ  
 ખિચાર(મે)ટિકે ઓ મનસા  
 ૨. ઝારૂ ઝારૂ તેલિય લેક પલ્કુ  
 ઝાર્ટલુ ઝિન(ને)લે રામ નામમુ (સા)  
 ૩૧. માર કોટિ લાખણ્ય(ઠે)ન રઘુ  
 ઝારૂનિ નામ સુધા રઘુમુનનુ  
 પારેકુ પાનમુ જેસિ જગદ-  
 ઝિહારૂટે ખેલયુ નારાયણ  
 નારાયણ(યુ)નુરૂનુ ઝારમુ  
 શર(દ)મુદ નિભૂટો શ્રી  
 નારદ મુનિ ઝલ્લીક જાતુનિકિ  
 કુરિમિ(નુ)પદેશિષ્ય લેદા (સા)  
 ૩૨. પરમ પાઞ્ચનૂનિ શર(શા)ગત જન  
 પરિપાલન બિરૂ(દાં)કુનિ પાઠા  
 ઝરૂનિ નામ સુધા રઘ પાનમુ  
 નિરચમુનનુ જેસિ હરિ હરિ  
 હરિ(યુ)નુરૂ પન્થમુનુ  
 પરિષ્ઠ લેનિ કાર્તી કાંશિ દેહમુ  
 પરઞ્ચગમુ જેનિ શુક બ્રહ્મ

ਪਰਾਖਿਓ(ਕੋ)ਸਗ ਲੇਦਾ ਓਦਾ (ਸਾ)  
 ਚੰ. ਸਾਮ ਗਾਨ ਲੋਲੂਤੌ ਰਜਤ ਗਿਰਿ  
     ਧਾਮੂਤੇਨ ਤਧਾਗਰਾਜ ਸ਼ਿਖੁ(ਤ)ਤਿ  
     ਨੇਮਮੂਤੋ ਨਾ(ਮਾ)ਮੂਤ ਪਾਨਮੂ  
     ਏਮਰਕਨੂ ਜੇਥਿ ਰਾਮ ਰਾਮ  
     ਰਾਮ(ਯ)ਨੂਰੂ ਸਤਤਮੂ  
     ਗ੍ਰੀਮ(ਦਾ)ਦਿ ਗੋਰਿਕਿ ਸ਼੍ਰੀਗਾਰਿਕਿ  
     ਆ ਮਹਿਮਲ(ਨਾ) ਰਹਸਧੂਲ(ਨ)ਤਿ  
     ਪ੍ਰੇਮ(ਨ੍ਹ)ਪਦੇਸ਼ਿੱਖ ਲੇਦਾ (ਸਾ)

### **Punjabi**

- ਪ. ਸਾਰਮੇ ਕਾਨਿ ਅਨਜ ਮਾਰਗ  
     ਵਿਚਾਰ(ਮੇ)ਟਿਕੇ ਓ ਮਨਸਾ  
 ਅ. ਵਾਰੁ ਵੀਰੁ ਤੇਲਿਜ ਲੇਕ ਪਲਕੁ  
     ਵਾਰਤਲੁ ਵਿਨ(ਨੇ)ਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮਸੁ (ਸਾ)  
 ਚ੧. ਮਾਰ ਕੋਟਿ ਲਾਵਲਜੁ(ਡੈ)ਨ ਰਘੁ  
     ਵੀਰੁਨਿ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਰਸਮੁਨਨ  
     ਸਾਰੇਕੁ ਪਾਨਸੁ ਜੇਸਿ ਜਗਦ-  
     ਵਿਹਾਰੁਡੈ ਵੇਲਯੁ ਨਾਰਾਯਣ  
     ਨਾਰਾਯਣ(ਯ)ਨੁਚਨੁ ਵਾਰਮੁ  
     ਸ਼ਰ(ਦ)ਮਬੁਦ ਨਿਭੁਡੈ ਸ੍ਰੀ  
     ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਵਲਮੀਕ ਜਾਤਨਿਕਿ  
     ਕੂਰਿਮਿ(ਨੁ)ਪਦੇਸ਼ਿਵਚ ਲੇਦਾ (ਸਾ)  
 ਚ੨. ਪਰਮ ਪਾਵਨੁਨਿ ਸ਼ਰ(ਣਾ)ਗਤ ਜਨ  
     ਪਰਿਪਾਲਨ ਬਿਰੁ(ਦਾਂ)ਕੁਨਿ ਸੀਤਾ  
     ਵਰੁਨਿ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪਾਨਸੁ

ਨਿਰਤਮੁਨਨੁ ਜੇਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ  
ਹਰਿ(ਯ)ਨੁਚੁ ਸਨਤਤਮਬੁਨੁ  
ਸਰਿਯੁ ਲੇਠਿ ਕੀਰਿਤ ਕਾਵਿਚ ਦੇਹਮੁ  
ਪਰਵਸ਼ਮਬੁ ਜੇਨਿਦ ਸੁਕ ਬ੍ਰਹਮ  
ਪਰੀਕਿਸ਼ਤੁ(ਕੋ)ਸਗ ਲੇਦਾ ਵਾਦਾ (ਸਾ)  
ਚ੩. ਸਾਮ ਰਾਨ ਲੋਲੁਡੈ ਰਜਤ ਗਿਰਿ  
ਧਾਮੁਡੈਨ ਤਜਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵੁ(ਡ)ਤਿ  
ਨੇਮਾਮੁਤੋ ਨਾ(ਮਾ)ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨਮੁ  
ਏਮਰਕਨੁ ਜੇਸਿ ਰਾਮ ਰਾਮ  
ਰਾਮ(ਯ)ਨੁਚੁ ਸਤਤਮੁ  
ਸ੍ਰੀਮ(ਦਾ)ਦਿ ਗੌਰਿਕਿ ਸਿੰਘਾਰਿਕਿ  
ਆ ਮਹਿਮਲ(ਨਾ) ਰਹਸ਼ਮੁਲ(ਨ)ਤਿ  
ਪ੍ਰੇਮ(ਨੁ)ਪਦੇਸ਼ਿਵਚ ਲੇਦਾ (ਸਾ)